



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 1983/चैत्र 30, 1905  
N 187] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 1983/CHAITRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

साध्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय  
(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1983

का. आ. 323 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधि-  
नियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन पेंपर एंड प्रिंजर मर्चेंट्स एसो-  
सिएशन लि., बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर  
वायदा बाजार आयोग, बम्बई के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने  
पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, एतद्वारा उक्त  
अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसिएशन

को यथा महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त मुम्बई साधारण खंड अधिनियम, 1904 (1904 का मुम्बई अधिनियम 1) में यथा परिभाषित बृहत्तर मुम्बई की सीमाओं के भीतर काली मिर्च की अग्रिम संविदाओं के बारे में 20 अप्रैल, 1983 से 19 अप्रैल, 1985 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की दो वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें।

[सं. 12 (8)-आइ. टी./79]

आई. एम. सहाय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1983

**S.O. 323(E).**—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Pepper & Ginger Merchants Association Ltd., Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of two years from the 20th April, 1983 to the 19th April, 1985 (both days inclusive), in respect of forward contracts in pepper within the limits of Greater Bombay as defined in the Bombay General Clauses Act, 1904 (Bombay Act 1 of 1904), as in force in the State of Maharashtra.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[No. 12(8)-IT/79]

I. M. SAHAI, Jt. Secy.